

# अपने जिन कामों से आप अव्यवस्थित हो जाते हैं

मैं कौन से काम ज्यादा  
कर रहा/रही हूँ?

मैं कौन से काम कम  
कर सकता/सकती हूँ?

मैं कहाँ पहुँचना  
चाहता/चाहती हूँ?